



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १०, अंक ७४]

मंगळवार, ऑक्टोबर २२, २०२४/आश्विन ३०, शके १९४६

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १.००

असाधारण क्रमांक १०४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),

जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, MAHARASHTRA STATE

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032, dated 22nd October, 2024.

NOTIFICATION

No. GEN-2024/CR. 48/24/33/Election (1).—In Pursuance of Sections 15(2) of the Representation of the People Act, 1951 and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the followings are published for general information :—

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,
Mumbai 400 032, dated 22nd October, 2024

NOTIFICATION

No. GEN-2024/C.R. 48/24/33/Election (1).—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Maharashtra, unless sooner dissolved, shall continue upto and including the 26th November, 2024 and shall, thereafter, stand dissolved on expiration of its duration ; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a general election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State.

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India in pursuance of sub-section (2) of the Section 15 of the said Act, the Governor of the State of Maharashtra, is hereby pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By order and in the name of the Governor,

SUJATA SAUNIK,
Chief Secretary to the Government of Maharashtra.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the 22nd October 2024
30 Ashvina, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 464/MH-LA/2024.—WHEREAS, the Governor of the State of Maharashtra has, by notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the *Official Gazette* of the State on the 22nd October, 2024, been pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby—

(A) appoints, with respect to the said election in each of the constituencies,—

- (a) the 29th October, 2024 (Tuesday), as the last date for making nominations ;
- (b) the 30th October, 2024 (Wednesday), as the date for scrutiny of nominations ;
- (c) the 4th November, 2024 (Monday), as the last date for withdrawal of candidatures ;
- (d) the 20th November 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- (e) the 25th November 2024 (Monday), as the date before which the election shall be completed ; and

(B) Fixes the hours from 7-00 a.m. to 6-00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election in all the Assembly Constituencies except 63-Arjuni Morgaon (SC), 66-Amgaon (ST), 67-Armori (ST), 68-Gadchiroli (ST) and 69-Aheri (ST) Assembly Constituencies and Polling Station 1-Manibeli, 7-Chimalkhedhi, 10-Bamani, 12-Danel and 13-Mukhadi of 1-Akkalkuwa (ST) Assembly Constituency where it shall be from 7-00 a.m. to 3-00 p.m.

By order,

S. K. DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, तारीख 22 अक्टूबर, 2024
30 आश्विन, 1946 (शक)**अधिसूचना**

सं. 464/महा.-वि.स./2024.— यतः, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी और **22 अक्टूबर, 2024** को राज्य के **शासकीय राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा इस राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें, और

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्रों में उक्त निर्वाचन के संबंध में :-

(क) नाम - निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	29 अक्टूबर 2024 (मंगलवार)
(ख) नाम - निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	30 अक्टूबर 2024 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	04 नवम्बर 2024 (सोमवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	20 नवम्बर 2024 (बुधवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	25 नवम्बर 2024 (सोमवार)

नियत करता है, और

(आ) 63-अर्जुनी-मोरगांव (अ.जा.), 66 - आमगांव (अ.ज.जा.), 67 - आरमोरी (अ.ज.जा.), 68 - गडचिरोली (अ.ज.जा.) और 69- अहेरी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों एवं 1 - अक्कलकुवा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र 1- मणिबेली, 7-चिमलखेडी, 10 - बामणी, 12 - डनेल एवं 13 - मुखडी जहां निर्वाचन 7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक होगा, के अतिरिक्त शेष सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा

आदेश से,

एस. के. दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

M. R. PARKAR
Deputy Secretary and Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

क्रमांक जीईएन (विस)-२०२४/प्र.क्र.४८/२४/३३ निवडणूक (१)

सामान्य प्रशासन विभाग

कक्ष क्र. ६११, ६वा मजला, मादाम कामा मार्ग,
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२४.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

- (१) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर.
- (२) विभागीय आयुक्त, सर्व.
- (३) सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता).
- (४) अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर.
- (५) सचिव (१) कार्यभार, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (६) विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी, सर्व
(जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, यांच्यामार्फत).
- (७) विधानसभा मतदारसंघाचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, सर्व
(जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, यांच्यामार्फत).
- (८) निवडनस्ती.

म. रा. पारकर,
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.